



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 229]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 1979/अग्राहायण 8, 1901

No. 229]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 1979/AGRAHAYANA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अप्रत्यक्ष कर प्रभाग

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1979

सार्वजनिक सूचना

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Indirect Taxes Division

New Delhi, the 29th November 1979

PUBLIC NOTICE

सं० प्रतिप्रदायगी/सां०सू० 83/79.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रति प्रदायगी/सां०सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उपक्रम सं० 201 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्न लिखित उपक्रम सं० और प्रविष्टियां अतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

उपक्रम सं०	साल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
202	बिकरी के बिना इमटेड चाफ़ी	260-रु० (केवल दो सौ साठ रुपये) प्रति क्विंटल।

टिप्पणी :—प्रतिप्रदायगी की उपर्युक्त दर में, प्रयुक्त पैकिंग सामग्री, यदि कोई हो, पर प्रतिप्रदायगी शामिल नहीं है।

2. यह सार्वजनिक सूचना जून 1979 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायेगी।

3. उपर्युक्त साल के बारे में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिये नियत की गई बांड वरें इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने ही वापस ले ली जायेगी।

No. Drawback/PN-83/79.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary—dated the 25th August 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Tables published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time:—

1. After Sub-serial No. 201 and the entries relating thereto the following sub-serial No. and the entries shall be inserted namely :

Sub serial No.	Description of goods	Rate of drawback.
202.	Istant Coffee without Chicory.	Rs. 260 (Rupees two hundred and sixty only) per quintal.

Note: The above rate of drawback is exclusive of Drawback on packings materials used, if any.

2. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1979.

3. All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

शुद्धि-पत्र

सं. प्र.अ./सा.सू. 84/79.—भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग 1, खण्ड (1) में प्रकाशित दिनांक 1 जून, 1979 की सा.सू. सं. प्र. अ./सा.सू. 42/79 में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धियाँ करती है, अर्थात् :—

उपक्रम सं. 2407 की उप मद (ग) के सामने "माल का विवरण" स्तम्भ में विद्यमान शब्दों "आर्ट क्रोम पेपर" के स्थान पर "आर्ट/क्रोम पेपर" पढ़ें।

महेश कुमार, अवर सचिव

CORRIGENDUM

NO. DRAWBACK/PN-84/79.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-42/79, dated the 1st June, 1979 published in Part I Section (i) of the Gazette of India (Extraordinary), the Central Government hereby makes the following corrections therein; namely :—

In the column 'Description of goods' against sub-item (c) of Sub-Serial No. 2407 for the existing words "Art Chrome paper" Read "Art/Chrome paper."

MAHESH KUMAR, Under Secy.

सार्वजनिक सूचना

सं. प्रतिअदायगी/सा.सू.-85/79—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा.सं. 602/2/70-प्र.अ.) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/सा.सू. 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उपक्रम सं. 4712 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाव निम्नलिखित उप क्र.सं. और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

उपक्रम सं.	माल का विवरण	प्र.अ. की दर
4713	पेपर कोन लाउडस्पीकर	पो. प. निःशुल्क मूल्य का 3% (केवल तीन प्रतिशत)

2. उपर्युक्त माल के संबंध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिये नियत की गई सभी ब्रांड वरें इस सा.सू. के लागू होते ही वापस ले ली जायेंगी।

के.एस. वेन्कटरमणी, उप सचिव

PUBLIC NOTICE

No. Drawback/PN-85/79.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

1. After sub-serial No. 4712 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted namely :—

Sub S.No.	Description of goods	Rate of drawback
4713	Paper Cone Loudspeaker	3% (Three per cent only) of the f.o.b. value.

2. All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

K. S. VENKATARAMANI, Dy. Secy.

सं. प्रतिअदायगी/सा.सू. 86/79.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा.सं. 602/2/70-प्र.अ.) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/सा.सू. 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उप क्र. सं. 4610 के सामने मद (1) के लिये 'प्रति-अदायगी की दर' स्तम्भ में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1) तांबा अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, का प्रति कि. ग्रा. 11.35 रु. (केवल ग्यारह रुपये पैंतीस पैसे), जमा”

2. यह सार्वजनिक सूचना अक्टूबर, 1978 के पच्चीसवें दिन को लागू हुई समझी जाएगी और मई, 1979 के इकतीसवें दिन तक लागू रहेगी।

महेश कुमार, अवर सचिव

PUBLIC NOTICE

NO. DRAWBACK/PN-86/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

1. In the column 'Rate of drawback' for item (i) against Sub-Serial No. 4610, for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

“(i) Rs. 11.35 (Rupees Eleven and paise thirty five only) per kg. copper content, if any, plus.”

2. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 25th day of October, 1978 and shall remain in force till 31st day of May, 1979.

MAHESH KUMAR, Under Secy.